



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1500]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2006/अग्रहायण 29, 1928

No. 1500]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2006/AGRAHAYANA 29, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2122(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 832(अ), तारीख 31 मई, 2006 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 103.00 कि.मी. (आगरा-ग्वालियर सेक्शन) के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 16.00 कि.मी. (ग्वालियर-झांसी सेक्शन) से जोड़ने वाले ग्वालियर बाईपास के निर्माण (निर्माण) के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 12 जुलाई, 2006 को "दैनिक भास्कर" और 11, जुलाई, 2006 को "दैनिक मध्यराज्य" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 103 कि.मी. (आगरा-ग्वालियर सेक्शन) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 16 कि.मी. (ग्वालियर-झांसी सेक्शन) से जोड़ने वाले प्रस्तावित ग्वालियर बाईपास के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मुरैना	मुरैना	(i) उरहाना	314	निजी	सिंचित	0.41	सुल्तान सिंह, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रगण हरिया स.भा. 30/622 कल्याण सिंह काशीराम पुत्रगण ग्यासिया स.भा 311/622 जाति जाटव नि० रायपुरा, जयराम सिंह मदन सिंह पुत्रगण शिव सहाय स. भा. 281/ 622 जाति ठाकुर नि० कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				315	निजी	सिंचित	1.19	सुल्तान सिंह, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रगण हरिया स.भा. 30/622 कल्याण सिंह काशीराम पुत्रगण ग्यासिया स.भा 311/622 जाति जाटव नि० रायपुरा, जयराम सिंह मदन सिंह पुत्रगण शिव सहाय स. भा. 281/ 622 जाति ठाकुर नि० कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				321	निजी	सिंचित	0.21	सुल्तान सिंह, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रगण हरिया स.भा. 30/622 कल्याण सिंह काशीराम पुत्रगण ग्यासिया स.भा 311/622 जाति जाटव नि० रायपुरा, जयराम सिंह मदन सिंह पुत्रगण शिव सहाय स. भा. 281/ 622 जाति ठाकुर नि० कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				322	निजी	सिंचित	0.35	सुल्तान सिंह, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रगण हरिया स.भा. 30/622 कल्याण सिंह काशीराम पुत्रगण ग्यासिया स.भा 311/622 जाति जाटव नि० रायपुरा, जयराम सिंह मदन सिंह पुत्रगण शिव सहाय स. भा. 281/ 622 जाति ठाकुर नि० कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				323	निजी	सिंचित	0.07	सुल्तान सिंह, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रगण हरिया स.भा. 30/622 कल्याण सिंह काशीराम पुत्रगण ग्यासिया स.भा 311/622 जाति जाटव नि० रायपुरा, जयराम सिंह मदन सिंह पुत्रगण शिव सहाय स. भा. 281/ 622 जाति ठाकुर नि० कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				1059	निजी	सिंचित	0.14	रहोस खाँ सिद्धे खाँ पुत्रगण श्री सकूर खाँ स.भा. निवासी चकरायपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				1064	निजी	सिंचित	0.62	रघुराज सिंह पुत्र गोपाल सिंह बृजभान सिंह रणविजय सिंह पुत्रगण श्री रघुराज सिंह ठाकुर स.भा. निवासी कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				324	निजी	सिंचित	0.02	सुल्तान सिंह, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रगण हरिया स.भा. 30/622 कल्याण सिंह काशीराम पुत्रगण ग्यासिया स.भा 311/622 जाति जाटव नि० रायपुरा, जयराम सिंह मदन सिंह पुत्रगण शिव सहाय स. भा. 281/ 622 जाति ठाकुर नि० कुँअरपुर जिला ग्वालियर भूमि स्वामी
				1060	निजी	सिंचित	0.12	रघुराज सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी कुँअरपुर जिला ग्वालियर
				1070	निजी	सिंचित	0.05	वसीर उर्फ गंगे सुलेमान खों पुत्र नवाब खों स.भा. निवासी मलखानपुरा
				1066	निजी	सिंचित	0.19	बृजभान सिंह बालिग रणविजय सिंह नाबालिग पुत्रगण श्री धीर सिंह सरफरस्त मोँ स्वयं रकवा 0.34 सूरजकली पत्नी धीर सिंह रकवा 0.11 जाति ठाकुर निवासी कुँअरपुर जिला ग्वालियर
				1079	निजी	सिंचित	0.29	सफात खों पीर खों रहीम खों पुत्रगण काले खों समा पुत्री काले खों जाति मुसलमान निवासी ग्राम
				1076	निजी	सिंचित	0.45	बसीर उर्फ गंगे सुलेमान खों पुत्रगण नवाब खों स. भा. निवासी मलखान पुरा
				1073	निजी	सिंचित	0.68	रामदयाल पुत्र मंजू जाति बघेले निवासी मलखानपुरा
				1074	निजी	सिंचित	0.07	सफात खों पीर खों रहीम खों पुत्रगण काले खों स.भा. जाति मुसलमान निवासी ग्राम
				1072	निजी	सिंचित	0.43	रामदयाल पुत्र मंजू जाति बघेले निवासी मलखानपुरा
		(ii) खरका		164	निजी	असिंचित	0.04	मायाराम पुत्र लज्जाराम जाति गुर्जर ठाकुर भूमिस्वामी
				161	निजी	असिंचित	0.08	रामअवतार पुत्र श्यामलाल भूमिस्वामी
				162	निजी	असिंचित	0.10	रघुवीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति गुर्जर ठाकुर भूमिस्वामी
				168	निजी	असिंचित	0.05	रामनरेश सिंह पुत्र हीरालाल भूमिस्वामी
				166	निजी	असिंचित	0.11	कप्तान सिंह मायाराम पुत्रगण लज्जाराम भूमिस्वामी
				167	निजी	असिंचित	0.30	सूरज सिंह पुत्र कप्तान सिंह भूमिस्वामी
				207	निजी	असिंचित	0.15	लाखन सिंह पुत्र सरनाम सिंह जाति गुर्जर ठाकुर भूमिस्वामी
		(iii) टिकरी		476	निजी	सिंचित	0.55	द्वारिका पुत्र भार्गीरथ जाति गुर्जर ठाकुर भूमिस्वामी निवासी ग्राम
				474	निजी	सिंचित	0.10	महेन्द्र सिंह तानसेन सिंह बन्टी सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह भूमिस्वामी स.भा.
				505	निजी	सिंचित	0.117	गुलाब सिंह पुत्र कमोद सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम
		(iv) मलखान पुरा		219	निजी	असिंचित	0.39	मनखशी माधव सिंह पुत्रगण किशुना स.भा. जाति जाटव निवासी ग्राम

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2006

S.O. 2122(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highway (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 832 (E), dated the 31st May 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (construction) of Gwalior bypass joining Km. 103.00 of National Highway No.3 (Agra-Gwalior Section) to Km. 16.00 of National Highway, No. 75 (Gwalior-Jhansi Section) in Morena District in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar", dated the 12th July, 2006 and in "Dainik Madhavarajya", dated the 11th July, 2006, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (i) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Gwalior Bypass joining Km. 103 of National Highway No. 3 (Agra - Gwalior Section) to Km. 16 of National Highway No. 75 (Gwalior- Jhansi Section) in the State of Madhya Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Types of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/ Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Morena	Morena	1. Urhana	314	Private	Irrigated	0.14	Sultan singh, Babu Lal Chotte Lal Haria equal part 30/622 Kalyan singh Kasiram S/o Gyasia equal part 311/ 622 Caste Jatav residence Raipura. Jairam singh Madan singh S/o Shiv Sahai. Equal part 281/622 Caste Thakur Residence Kunwarpur, Distt. Gwalior. Landowner
				315	Private	Irrigated	1.19	Sultan singh, Babu Lal Chotte Lal Haria equal part 30/622 Kalyan singh Kasiram S/o Gyasia equal part 311/ 622 Caste Jatav residence Raipura. Jairam singh Madan singh S/o Shiv Sahai. Equal part 281/622 Caste Thakur Residence Kunwarpur, Distt. Gwalior. Landowner
				321	Private	Irrigated	0.21	Sultan singh, Babu Lal Chotte Lal Haria equal part 30/622 Kalyan singh Kasiram S/o Gyasia equal part 311/ 622 Caste Jatav residence Raipura. Jairam singh Madan singh S/o Shiv Sahai. Equal part 281/622 Caste Thakur Residence Kunwarpur, Distt. Gwalior. Landowner
				322	Private	Irrigated	0.35	Sultan singh, Babu Lal Chotte Lal Haria equal part 30/622 Kalyan singh Kasiram S/o Gyasia equal part 311/ 622 Caste Jatav residence Raipura. Jairam singh Madan singh S/o Shiv Sahai. Equal part 281/622 Caste Thakur Residence Kunwarpur, Distt. Gwalior. Landowner
				323	Private	Irrigated	0.07	Sultan singh, Babu Lal Chotte Lal Haria equal part 30/622 Kalyan singh Kasiram S/o Gyasia equal part 311/ 622 Caste Jatav residence Raipura. Jairam singh Madan singh S/o Shiv Sahai. Equal part 281/622 Caste Thakur Residence Kunwarpur, Distt. Gwalior. Landowner
				1059	Private	Irrigated	0.14	Rahis Khan Sidhe Khan S/o Sakoor Khan equal part Residence Chakraipur Distt. Gwalior
				1064	Private	Irrigated	0.62	Raghuraj Singh S/o Gopal Singh Brijbhan singh Ranvijay singh S/o Raghuraj singh Caste Thakur. Equal part Residence Kunwarpur Distt. Gwalior

3938 97/06-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				324	Private	Irrigated	0.02	Sultan singh, Babu Lal Chotte Lal S/o Haria equal part 30/622 Kalyan singh Kasiram S/o Gyasia equal part 311/ 622 Caste Jatav residence Raipura. Jairam singh Madan singh S/o Shiv Sahai. Equal part 281/622 Caste Thakur Residence Kunwarpur, Distt. Gwalior. Landowner
				1060	Private	Irrigated	0.12	Raghuraj singh S/o Gopal Singh Caste Thakur Residence Kunwarpur Distt. Gwalior.
				1070	Private	Irrigated	0.05	Basir or Gange Suleman Khan S/o Navab Khan equal part Residence Malkhanpura
				1066	Private	Irrigated	0.19	Brijbhan singh Adult Ranvijay singh (Not Adult) S/o Dheer Singh Guardian Mother Area 0.34 Suraj Kali Wife of Dheer Singh Area 0.11 Caste Thakur Residence Kuwarpur Distt. Gwalior
				1079	Private	Irrigated	0.29	Safat Khan Peer Khan Rahim Khan S/o Kale Khan Sama D/o Kale Khan Caste Musalman Residence Village
				1076	Private	Irrigated	0.45	Basir or Gange Suleman Khan S/o Navab Khan equal part residence Malkhan pura
				1073	Private	Irrigated	0.68	Ramdayal S/o Manju Caste Baghele Residence Malkhanpura
				1074	Private	Irrigated	0.07	Safat Khan Peer Khan Rahim Khan S/o Kale Khan equal part Caste Musalman Residence Village
				1072	Private	Irrigated	0.43	Ramdayal S/o Manju Caste Baghele Residence Malkhanpura
			(2) Kharka	164	Private	Non-irrigated	0.04	Mayaram S/o Lajjaram Caste Gurjar Thakur land owner
				161	Private	Non-irrigated	0.08	Ramawtar S/o Shyamlal land owner
				162	Private	Non-irrigated	0.10	Raghuveer singh S/o Ajmer Singh Caste Gurjar Thakur land owner
				168	Private	Non-irrigated	0.05	Ramnaresh Singh S/o Hira lai land owner
				166	Private	Non-irrigated	0.11	Kaptan singh Mayaram S/o Lajjaram land owner
				167	Private	Non-irrigated	0.30	Suraj singh S/o Kaptan singh land owner
				207	Private	Non-irrigated	0.15	Lakhan singh S/o Samam singh Caste Gurjar Thakur land owner.
			(3) Tikri	476	Private	Irrigated	0.55	Dwarika S/o Bhagirath Caste Gurjar Thakur landowner Residence village.
				474	Private	Irrigated	0.10	Mahendra singh Tansen singh Banti Singh S/o Jugendra singh Land owner
				505	Private	Irrigated	0.117	Gulab singh S/o Kammod singh Caste Gurjar Thakur. Residence Village
			(4) Malkhan pura	219	Private	Non-irrigated	0.39	Mankhusi Madhav singh S/o Kisna equal part Caste Jatav Residence Village

[No. NHAI/PIU/Gwl./2006-07/Gwalior bypass/Morena/3D-Add./I.A.]

PRABHAKAR, Dy. Secy.